



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आषाढ़ 1940 (श10)

(सं0 पटना 667) पटना, शुक्रवार, 20 जुलाई 2018

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई 2018

सं० 1/प्रा0आ0-0-3-31/14-1891/आ0प्र0—भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रां33-4/2015—NDM-1 दिनांक 20.03.2015 के आलोक में दिनांक 01.04.2015 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबों/गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा— सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानोमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या-1418 दिनांक 17.04.2015 द्वारा अधिसूचित है।

2. उल्लेखनीय है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में आनेवाली चक्रवातीय तूफान का प्रभाव राज्य में भी पड़ता है, परन्तु स्थानीय आंधी-तूफान (Thunder Storm) से भी राज्य के जिले अधिकांश समय में प्रभावित होते रहते हैं। स्थानीय आंधी-तूफान को भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना सं०-1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.2015 में भी आंधी-तूफान को राज्य के स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल नहीं किया गया है। आंधी-तूफान से प्रत्येक वर्ष राज्य में व्यापक जानोमाल की क्षति होती है, जिसका कुप्रभाव सीधे जनमानस एवं राज्य के विकास पर पड़ता है। अतएव दिनांक 13.09.2017 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में आंधी-तूफान को भी स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) में सम्मिलित करते हुए राज्य के निवासियों को आंधी-तूफान के घटित होने की दशा में आंधी-तूफान से होने वाली जानोमाल की क्षति में SDRF/NDRF से संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. वर्तमान में स्थानीय प्रकृति की आपदा में नदियों/तालाबों/गड्ढों में डूबने से हुए मृत्यु के मामले में अनुग्रह अनुदान भुगतान किया जाता है, परन्तु नहर में डूबने से मृत्यु का उल्लेख विभागीय अधिसूचना में नहीं है। जबकि जिलों से नहर में डूबने की घटना प्रतिवेदित हो रही है। अतएव दिनांक 12.06.2018 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्थानीय प्रकृति की आपदा से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक

17.04.2015 में संशोधन करते हुए राज्य के विशिष्ट प्रकृति की आपदा में नदियों/तालाबों/गड्ढों के अतिरिक्त नहरों में डूबने से होने वाली मृत्यु में व्यक्ति/व्यक्तियों के कुप्रभावित होने पर SDRF/NDRF के सदृश्य अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 13.09.2017 में लिये गये निर्णय के आलोक में आँधी-तूफान को भी स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) में सम्मिलित करते हुए राज्य के निवासियों को आँधी-तूफान के घटित होने की दशा में आँधी-तूफान से होने वाली जानोमाल की क्षति में SDRF/NDRF से संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने के प्रावधान लागू होंगे। साथ ही राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.06.2018 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में अधिसूचना संख्या-1418 दिनांक 17.04.2015 को संशोधित करते हुए स्थानीय प्रकृति की आपदाओं के अंतर्गत नदियों/तालाबों/गड्ढों के अतिरिक्त नहरों में भी डूबने से होने वाली मृत्यु में व्यक्ति/व्यक्तियों के कुप्रभावित होने पर ही SDRF/NDRF से संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान भुगतान करने के प्रावधान लागू होंगे।

यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 667-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>